



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2007 (अग्रहायण 3, 1929)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2007 (AGRAHAYANA 3, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1089	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1151	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6111
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1803	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	769
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	11765
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	701
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1089	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	1151	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1803	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6111
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	769
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	11765
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	701
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय
 (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2007

संकल्प

सं. एल-11011/4/2004-एल. एंड एम.--इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2007 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सहकारी समितियों की उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए गठित सहकारी समिति विषयक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का कार्यकाल एतद्द्वारा 10 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। समिति को 10 जनवरी, 2008 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सतीश चन्द्र
 संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

शुद्धि-पत्र

सं. फा. 11011-1/2006-रा.भा.ए.--मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 2006 के समसंख्यक संकल्प में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :--

1. उक्त संकल्प में जहाँ कहीं भी "मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग" का उल्लेख किया गया है, के स्थान पर "मानव संसाधन मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग) तथा (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)" पढ़ा जाए।

2. उक्त संकल्प के कालम I में "गठन" शीर्ष के अधीन किए गए उल्लेख में "मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) - उपाध्यक्ष" के स्थान पर "मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (उच्चतर शिक्षा) - उपाध्यक्ष" पढ़ा जाए।

3. उक्त संकल्प के कालम III "समिति का कार्य" शीर्ष के अधीन किए गए "महिला एवं बाल विकास विभाग" के उल्लेख को हटाया जाता है।

4. उक्त संकल्प में किए गए अन्य उल्लेख पूर्ववत् रहेंगे।

यह मानव संसाधन विकास मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

केशव देसिराजु
 संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2007

सं. एफ-11-2/2004-एमसी(पी)--राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 5(2) के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के कार्यालय में सदस्य के पद से श्री वाल्सन थम्पू द्वारा भेजे गए त्याग पत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्रीमती बसन्ती स्टैनले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

2. उनकी नियुक्ति की अवधि श्री वाल्सन थम्पू के शेष कार्यकाल जो कि 5.12.2009 तक है, के लिए होगी और श्रीमती बसन्ती स्टैनले द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी।

3. चूंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के सदस्य का कार्यालय पूर्णकालिक कार्यालय होता है जिसके लिए वेतन तथा भत्ते प्रासंगिक नियमों के तहत निर्धारित किए जाते हैं, इसीलिए श्रीमती बसन्ती स्टैनले इस समय किसी भी अन्य कार्यालय में धारित पद को त्याग देने के बावत एक ब्यौरा देंगी।

4. श्रीमती बसन्ती स्टैनले को नई दिल्ली, मुख्यालय में तैनात किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति श्रीमती बसन्ती स्टैनले को भेजी जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

विषय :--कार्यकाल समाप्त हो जाने पर राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति का पुनर्गठन।

सं. एफ. 6-3/2007-एम.सी.--राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति गठित करने वाले दिनांक 23.8.2007 के कार्यालय संकल्प के अनुक्रम में निम्नलिखित संसद सदस्यों को समिति में नियुक्त किया जाता है :--

1. श्री सरताज सिंह चटवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)
बी-601, एम.एस. फ्लैट्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-1।

2. श्री इकबाल अहमद सरडगी, संसद सदस्य (लोक सभा)
98, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
3. सुश्री मैबेल रिबेलो, संसद सदस्य (राज्य सभा)
701, ब्रह्मपुत्र, डॉ. बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-1
4. श्री एस.एम. लालजनबाश, संसद सदस्य (राज्य सभा)
ए.बी.-15, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 30th October 2007

RESOLUTION

No. L-11011/4/2004-L & M.—In continuation of this Department's resolution of even number dated 2nd August, 2007, with the approval of the competent authority, the term of the High Powered Committee on Cooperatives constituted to review the achievements of cooperatives is hereby extended for further period upto 10th January, 2008. The Committee has to submit report by 10th January, 2008.

ORDER

Ordered that copy of the resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SATISH CHANDER
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110 001, the 4th October 2007

CORRIGENDUM

No. 11011-1/2006-O.L.U.—The resolution of even number dated 18.7.2006 of this Ministry regarding reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Human Resource Development, is modified as under :—

1. In the said resolution wherever "Department of Secondary and Higher Education and the Department of Elementary Education and Literacy" occurs, it may be read as "Department of Higher Education and Department of School Education and Literacy."
2. In column I of the said Resolution, under the Head "Composition", "Minister of State for Human Resource Development (Secondary and Higher Education)—Vice-Chairman" may be read as, "Minister of State for Human Resource Development (Higher Education)—Vice-Chairman".
3. In column III of the said resolution, under Head "Functions of the Committee", the name of the Department of Women and Child Development is deleted.
4. The other contents of the said resolution remain the same.

2-231 6/7

5. This issues with the approval of the Minister of Human Resource Development.

KESHAV DESIRAJU
Jt. Secy.

New Delhi, the 5th November 2007

No. F. 11-2/2004-MC(P).—Consequent upon the acceptance of the resignation tendered by Rev. Valson Thampu from the office of Member, National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI), under section 5(2) of the NCMEI Act, 2004 by the Competent Authority, Central Government, by virtue of the powers vested in it under section 5(4) of the said Act, is pleased to appoint Mrs. Vasanthi Stanley as Member National Commission for Minority Educational Institutions.

2. The tenure of her appointment will be for the residual term of Rev. Valson Thampu, which is up to 5.12.2009 and will take effect from the date on which Mrs. Vasanthi Stanley assumes office.

3. As the office of Member NCMEI is full time for which the salaries and allowances are prescribed under the relevant rules, Mrs. Vasanthi Stanley will furnish a statement of having relinquished any other office/s currently held by her.

4. The headquarters of Mrs. Vasanthi Stanley will be in New Delhi.

ORDER

Ordered also that notification be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that the a copy of notification be communicated to Mrs. Vasanthi Stanley.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

Subject :—Reconstitution of the National Monitoring Committee for Minorities' Education (NMCME) on expiry of tenure.

No. 6-3/2007-MC.—In continuation of this office Resolution dated 23-8.2007 reconstituting National Monitoring Committee for Minorities's Education (NMCME) following members of Parliament have been nominated on the committee :—

1. Shri Sartaj Singh Chatwal, M.P. (Lok Sabha)
B-601, MS Flats, Baba Kharg Singh Marg,
New Delhi-1.

2. Shri Iqbal Ahmed Saradgi, M.P. (Lok Sabha)
98, South Avenue, New Delhi-110001.

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

3. Ms. Mabel Rebello, M.P. (Rajya Sabha)
701, Brahmaputra, Dr. Bishambar Das Marg,
New Delhi-1.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

4. Sh. S.M. Lal Jan Basah, M.P. (Rajya Sabha)
AB-15, Mathura Road, New Delhi.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.